

SHRI VAYALAR RAVI : On a point of procedure, Sir. In future if the time is over, will the next member to the question be called or not?

MR. SPEAKER : Will not be called.

SHORT NOTICE QUESTION

आसाम के कछार जिले में करीमगंज सब-डिवीजन में पाये गये पैकेट तथा पैम्फलेट

+

S.N.Q. 29. श्री ओम प्रकाश त्यागी :  
श्री के० लकापा :  
श्री धन्ना सिंह गुलशन :  
श्री सुरेन्द्र विक्रम :  
डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या गृह मंत्रो यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सही है कि आसाम के कछार जिले में करीमगंज सब-डिवीजन में फकीर बाजार, पानीघाट, तथा ओनादारी में ऐसे पैकेट पाये गये थे जिनमें घोतियां, लुंगियां और पैम्फलेट थे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). Yes, Sir. The news report is correct. Packets containing towels, underwears, food stuff and small leaflets in Chinese were found in some villages of Karimganj sub-division in Cachar District of Assam on 2nd and 3rd July, 1977. Similar cases had come to notice earlier also and no investigation it appeared that the literature and articles were meant for distribution amongst people in China. Such articles are usually sent by balloons which sometimes drift and land into our territory on account of shifting wind currents.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि

जो उस सामान में पैम्फलेट्स निकले हैं उन पर प्रैस लाइन क्या है और उसमें विषय क्या है ? और क्या यह जो आपकी मान्यता है इस पर आपने तायवान सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित कर के संतुष्टि की हैं कि नहीं ? यदि की है, तो उनका क्या जवाब है ?

श्री चरण सिंह : हमने उनसे पूछना कोई जरूरी नहीं समझा, कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा शायद हमारे उनसे कोई डिप्लो-मैटिक सम्बन्ध भी नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने पूछा था कि जो पैम्फलेट्स पैकेट में निकले हैं उसमें प्रैस लाइन क्या है और मीटर क्या लिखा हुआ है ? क्या वह मीटर आपने पढ़वाया है कि नहीं ? अगर पढ़वाया है तो विषय क्या है ?

श्री चरण सिंह : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से फिर इन्क्वायरी कर के यह सूचना सदन में रख दूंगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जो सामान वहां से डिस्ट्रीब्यूशन के लिये आया है, आपने सामान का नाम तो लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ? जिस बैलून के द्वारा यह सामान आया है, उसका कुछ पता नहीं है, क्या सरकार ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी की है ?

इसके अलावा जो सामान वहां पर गिरा पैकेट बने, उसे जनता ने आपस में बांट लिया, लूट लिया या वह सरकार के पास आ गया ? मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ ?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य का कुछ क्याल ऐसा है कि यह बहुत ही सीरियस मामला है, जब कि ऐसा नहीं है। अक्सर ताइवान से इस तरह का लिटरेचर चाइनीज

मेन लैंड के लिये भंजा जाता है, जिसका हमारे देश से कोई सम्बन्ध नहीं है । हवा की लहर से, यह चाइनीज मेन लैंड में जाने के बजाय, चूँकि हमारा देश कंटीगुअस है, यहां आ जाता है । इसमें किसी खतरे की बात का सवाल नहीं है !

अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसकी इन्क्वायरी कर लंगा, लेकिन मेरे पास इस समय जो इत्तिला है, उससे ज्यादा इस समय नहीं है ।

SHRI K. LAKKAPPA : The North Eastern region is a very sensitive areas. It is a border area of our country. There are certain activities which are going on there for the last four months. The chinese activities have increased in that area. Foreign subversive activities are in operation in those areas. Recently, the hon. Prime Minister also answered certain questions when Phizo met him in London. I would like to know whether subversive and warring Chinese activities are increasing the North-Eastern Region? droppings of those essential items are Because our Government has not supplied those items at a subsidies rate and those areas have social and economical problems.

MR. SPEAKER : Please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA : Their activities are increasing and the question of defence of our territory is involved. Therefore, I would like to know what steps the hon. Home Minister is taking. Has he got any information with respect to the subversive activities? What steps has he taken to provide subsidised food articles and essential items to those areas, because those areas are socially and economically backward? You should bring them into the national mainstream. Therefore I would like to know as to what steps have been taken in this regard. What steps have you taken to maintain the security of these border areas, because for the past four months, these activities are increasing?

SHRI CHARAN SINGH : I do not think that the oration of the hon. gentleman requires a reply at all. Still, I may add : The lungis which were found did not contain any bombs.

SHRI K. LAKKAPPA : I asked whether any subversive activities were in operation in those areas. If so, what action was taken? If not, let him say, no.

SHRI CHARAN SINGH : No. Sir. none whatsoever.

श्री धन्ना सिंह गुलशन : मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैमफ्लेट और वस्तुयें किस ने गिराई, कैसे गिराई गई, इस में गिराने वाले का मनशा क्या था और क्या किसी विदेशी शक्ति का तो इस में हाथ नहीं है । क्या सरकार ने इस मामले की गहराई में जाने का कोई यत्न किया है, यदि हां, तो इस बारे में व्यौरा क्या है ?

श्री चरण सिंह : मैंने जो जवाब शुरू में दिया है, माननीय मित्र के प्रश्नों का उत्तर उसी में है । ये चीजें किसी ने नहीं गिराई, हवा ने गिराई ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : इस बात को देखते हुए कि चाइना से हमारे सम्बन्ध सुधरने की बात चल रही है, और पारस्परिक व्यापार की बात भी चल रही है, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है—न कि वे चार छः महीने से बढ़ गई हैं, जैसा कि श्री लकप्पा ने कहा है इससे पहले ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज्यादा थीं—क्या सरकार ने इस विषय में चाइना सरकार को लिख कर पूछा है कि यह बैलून गलती से यहां आ गया है या भेजा गया है ?

श्री चरण सिंह : मैंने पहले भी कहा है कि इस का चाइनीज मेनलैंड से कोई वास्ता नहीं है । यह ताइवान ने भेजा, जिस को पहले फार्मोसा कहते थे । उस का प्रापेगेंडा लिट्रेचर उस में था, ऐसा हमारे इन्टेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों का ख्याल है । जो सामान भेजा गया है, उस की तफ़सील मैंने बता दी है । इस सिलसिले में माननीय मित्रों को जो चिन्ता हो रही है, वह यह कि मानों देश की सुरक्षा का मामला इस में हो । कोई इस तरह का सवाल नहीं है । जहां तक

पिछले चार महीने की बात है, यह तीस साल के बराबर होता रहा है, जब माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मी, की गवर्नमेंट थी ।

**DR. VASANT KUMAR PANDIT :** May I know from the hon. Home Minister whether in the previous incidents of such balloons having been found, were the pamphlets translated? If so, what did they contain? Were they really innocent? This is my first question.

**MR. SPEAKER :** That he has already answered.

**DR. VASANT KUMAR PANDIT :** My second question is this. We want to know about this. In the previous cases was any enquiry made? What are the types of such articles and the description of such articles? In this case, the description of the articles appears to be rather distorted, because, in this case, there are 'lungis' and 'dhoties' which the Government has described as 'underwears' and 'garments'. But, it appears, the clothes are presumably for the Indian people and not for the Chinese population.

**SHRI CHARAN SINGH :** If the hon. Member is so anxious and concerned about this question, then, as I have already made a promise, I will have fuller details sent by the officers to the Government here and then I will place a complete statement on the table of this House again.

**PROF. DILIP CHAKRAVARTY :** I have lived there for so many years and so I have some idea about the whole area. It is not near the Chinese Border. It is near the Bangladesh border. My question is : is it possible for a balloon flown in the mainland to come and drop at Karimnagar? I know the Home Minister has already assured that he will enquire and I believe, he will also be enquiring into this aspect of the problem whether it was flown from the Chinese mainland or somewhere else.

**MR. SPEAKER :** His answer was that it was from Taiwan.

**श्री एच० एल० पटवारी :** मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गत तीस साल में कांग्रेसी शासकों ने करीमगंज इलाके में ऐसे कुछ एजेंट तैयार किए हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, तो क्या वे इस की भी एन्क्वायरी कराएंगे ? बहुत

से कांग्रेसी एजेंट लोग इस के साथ शामिल हैं ।

**श्री चरण सिंह :** मैं तो अपने माननीय दोस्त, श्री विपक्ष में बैठे हैं की नेकनीयती पर विश्वास करता हूँ । अगर उन को स्वयं अपने पर विश्वास न हो तो वे स्वयं आप को जवाब दे देंगे । मेरा विश्वास उन की नेकनीयती पर है ।

**SHRI K. MALLANNA :** Sir, sometime back, the Home Minister expressed his opinion regarding the repeal of the Internal and External Emergencies. After this, so many incidents are taking place in the border areas. May I know from the hon. Minister what is the effective protection given by Government in the border areas?

**MR. SPEAKER :** I do not think this arises from that question.

**श्री भानु कुमार शास्त्री :** गृह मंत्री जी ने कहा कि यह कोई मीरियस मामला नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि जब तक वह जो पैम्फलेट्स हैं उन के कन्टेन्ट्स में गए हो नहीं, उन को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उस से पहले यह कह देना कि इस में सीरियसनेस नहीं है यह कैसे संभव है ?

**MR. SPEAKER :** He has said that, he will place a statement.

**श्री भानु कुमार शास्त्री :** लेकिन जब तक उस को पढ़ेंगे नहीं तब तक यह अन्दाज कैसे लगा सकते हैं कि यह मीरियस नहीं है ?

**MR. SPEAKER :** That is correct .